



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1944 (श10)  
(सं० पटना 777) पटना, शुक्रवार, 23 सितम्बर 2022

सं० 6/म0नि0-01-01/2021-9612/गृ0आ0  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)  
वीरचन्द पटेल पथ,  
पटना।

विषय :- पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2022  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अन्तर्गत गोदाम चौकीदार के 20 (बीस) पदों को प्रत्यर्पित करते हुए सहायक अभियंता (विद्युत) के 6 (छः) पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :- वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापक-3ए-8-बैठक-02/2018-6438, दिनांक-07.07.2022 के आलोक में स्वीकृत।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अन्तर्गत गोदाम चौकीदार के 20 (बीस) पदों को प्रत्यर्पित करते हुए सहायक अभियंता (विद्युत) के 6 (छः) पदों का सृजन निम्न रूप से किया जाता है :-

प्रत्यर्पण हेतु पद का ब्योरा :-

प्रत्यर्पित पद का नाम	वेतन स्तर	प्रत्यर्पित पदों की संख्या
गोदाम चौकीदार	Level - 1	20

## पद सृजन हेतु पद का ब्योरा :-

नवसृजित पद का नाम	वेतन स्तर	नवसृजित पदों की संख्या
सहायक अभियंता (विद्युत)	Level – 9	6

3. उपर्युक्त पद के प्रत्यर्पण पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹ 43,20,000 (तैंतालीस लाख बीस हजार रू0) मात्र एवं उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹ 38,23,200 (अड़तीस लाख तेईस हजार दो सौ रू0) मात्र है।

4. प्रस्तावित पदों के वेतनादि का भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा, जिस प्रकार निगम में कार्यरत अन्य कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-6/भ0नि0-01-01/2021 गृ0आ0 के पृ0-24/टि0 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-13.09.2022 की मद संख्या-01 के रूप में प्राप्त है।

6. स्वीकृत्यादेश पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या-6/भ0नि0-01-01/2021 गृ0आ0 के पृ0-18/टि0 पर दिनांक-29.07.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 777-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>